



तैराकी, मछली पकड़ने और बोटिंग के दौरान इन सुरक्षा सलाहों का पालन करके खुद को और अपने परिवार को पानी में और इसके आस-पास सुरक्षित रखें:



पानी में अकेले न जाएँ



मछली पकड़ने के समय या बोटिंग करते समय हमेशा लाइफ जैकेट पहनें



पानी की गतिविधियों से पहले या इनके दौरान एल्कोहल न पीएँ



अपने बच्चों की हमेशा निगरानी करें



तैराकी सीखें और अपने सुरक्षा नियमों से अवगत रहें